



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1977/माघ 9, 1898

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 1977/MAGHA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January 1977

G.S.R. 47(E).—Where as 15-12-76 had been appointed as the last date for receipt of nomination papers under rule 8 of the Council of Architecture Rules, 1973, by the notification of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education (No.G.S.R. 901 E dated 27-11-76).

And whereas only one candidate has been validly nominated;

And whereas the said candidate has been declared duly elected under sub-rule (1) of rule 14 of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 8, read with sub-rule (2) of rule 14, of the said rules the Returning Officer hereby appoints the date, time and place as specified in columns 1, 2 and 3, respectively, of the Table given below for the purposes specified in the corresponding entry in column 4 thereof.

THE TABLE

Date	Time	Place	Purpose
1	2	3	4
(a) 21-2-77	3.00 P.M.	Office of the Council of Architecture, 8-B Shankar Market, Connaught Circus New Delhi.	For the receipt of nomination papers and their scrutiny.
(b) 28-2-77	3.00 P.M.	do.	For the despatch of voting papers to the electors.
(c) (i) 14-3-77	3.00 P.M.	Do.	For the poll.
(ii) 14-3-77	4.00 P.M.	Do.	For the scrutiny and Counting of votes.

1' [No. F.12-2 '73-T.I.]

H. D. GULATI,
Deputy Educational Adviser (T).

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

जी० एस० आर० 47(अ).—जबकि भारत सरकार, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की जी० एस० आर० सं० 901ई, दिनांक 27-11-1976 की अधिसूचना द्वारा वास्तुकला परिषद् नियम 1973 के नियम 8 के अन्तर्गत नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख 15-12-1976 निर्धारित की गई थी।

और जबकि केवल एक उम्मीदवार ही वैध रूप से नामांकित किया गया है,

और जबकि उक्त उम्मीदवार को उपरोक्त नियमों के नियम 14 के उप नियम (1) के अधीन यथाविधि चुना हुआ घोषित किया गया है,

अतः अब उक्त नियमों के नियम 14 के उप नियम (2) के साथ पढ़े जाने वाले नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन अधिकारी एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम 4 में तवनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रयोजना हेतु सारिणी के क्रमशः कालम 1, 2 और 3 में उल्लिखित तारीख, समय और स्थान निर्धारित करते हैं।

सारणी

तारीख	समय	स्थान	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) 21-2-77	सायं 3 बजे	वास्तुकला परिषद का कार्यालय, 8वीं शंकर मार्केट कनाट सर्कस, नई दिल्ली	नामांकन पत्रों की प्राप्ति और उनकी जांच के लिए।
(ख) 28-2-77	सायं 3 बजे	—वही—	मतदाताओं को मत पत्र भेजने के लिए।
(ग) (1) 14-3-77	सायं 3 बजे	—वही—	मतदान के लिए।
(2) 14-3-77	सायं 4 बजे	—वही—	मतों की जांच तथा गणना के लिए।

[सं० एफ० 12-2/73-टी०आई०]

एच० डी० गुलाटी,

उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

